

स्नातक उपाधि कार्यक्रम
(बी.डी.पी.)

सत्रीय कार्य
(जुलाई, 2017 एवं जनवरी, 2018 सत्रों के लिए)

पाठ्यक्रम कोड : एफ.एच.डी.-02
हिन्दी में आधार पाठ्यक्रम -02



मनविकी विद्यापीठ

इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय
मैदान गढ़ी, नई दिल्ली 110068

हिन्दी में आधार पाठ्यक्रम-02 सत्रीय कार्य

पाठ्यक्रम कोड : एफ.एच.डी.-02

प्रिय छात्र/छात्राओ!

'हिन्दी में आधार पाठ्यक्रम-02' में आपको एक सत्रीय कार्य करना है। यह सत्रीय कार्य शिक्षक जाँच सत्रीय कार्य (टी.एम.ए.) है। सत्रीय कार्य के लिए 100 अंक निर्धारित किये गये हैं। यह पाठ्यक्रम कुल चार क्रेडिट का है।

उद्देश्य : सत्रीय कार्य का मुख्य उद्देश्य यह जाँचना है कि आपने पाठ्य सामग्री को कितना समझा है और आप स्वयं उसे अपने शब्दों में कैसे प्रस्तुत कर सकते हैं। उद्देश्य यह भी है कि अध्ययन के दौरान जो कुछ आपने सीखा और समझा है उसे आलोचनात्मक ढंग से प्रस्तुत कर सकें। इस पाठ्यक्रम में संप्रेषण के विविध पक्षों से आपको परिचित कराया गया है, इस अध्ययन से आप संप्रेषण के विभिन्न पहलुओं की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। इसके अलावा इस पाठ्यक्रम में डायरी, पत्र, रिपोर्टाज, यात्रा वृत्तांत और जीवनी जैसी साहित्यिक विधाओं से भी आपको परिचित कराया गया है। सत्रीय कार्य से आप यह जाँच सकेंगे कि आपने पाठ्यक्रम में प्रस्तुत सामग्री को कितना समझा है।

निर्देश : सत्रीय कार्य आरंभ करने से पूर्व निम्नलिखित बातों को ध्यान से पढ़िए :

1. ऐच्छिक पाठ्यक्रम के लिए कार्यक्रम दर्शिका में दिए गए विस्तृत निर्देशों का सावधानीपूर्वक अध्ययन कीजिए।
2. अपनी उत्तर पुस्तिकाओं के पहले पृष्ठ के दाएँ सिरे पर अनुक्रमांक, नाम, पूरा पता और दिनांक लिखिए।
3. अपनी उत्तर पुस्तिकाओं के प्रथम पृष्ठ के मध्य भाग में पाठ्यक्रम का शीर्षक, सत्रीय कार्य संख्या और अपने अध्ययन केन्द्र का उल्लेख करें।
4. उत्तर पुस्तिका का प्रथम पृष्ठ निम्न प्रकार से शुरू होगा :

अनुक्रमांक :

नाम :

पता :

.....

.....

पाठ्यक्रम का नाम/कोड :

सत्रीय कार्य कोड :

अध्ययन केन्द्र का नाम/कोड : दिनांक :

5. उत्तर के लिए केवल फुलस्केप के आकार के कागज़ का इस्तेमाल करें और उन कागज़ों को अच्छी तरह से बाँध लें।
6. प्रत्येक उत्तर के पहले प्रश्न संख्या अवश्य लिखें और अपनी ही लिखावट में उत्तर दें।

7. सत्रीय कार्य पूरा करके जाँच के लिए अपने अध्ययन केन्द्र के संयोजक (Coordinator) के पास निर्धारित तिथि तक अवश्य जमा करा दें।

सत्रीय कार्य जमा करने की अंतिम तिथि :

जुलाई 2017 सत्र के लिए : 31 मार्च, 2018

जनवरी 2018 सत्र के लिए : 30 सितंबर, 2018

सत्रीय कार्य के लिए आवश्यक निर्देश

सत्रीय कार्य में आपसे मुख्य रूप से तीन तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। लंबे निबंधात्मक प्रश्नों के उत्तर लगभग 350–400 शब्दों में लिखने हैं तथा लघु निबंधात्मक प्रश्नों के उत्तर 150–200 शब्दों में देने हैं। इसके अलावा तीसरी श्रेणी के प्रश्नों के उत्तर निर्देशानुसार देने हैं।

उत्तर देने के लिए आप निम्नलिखित विधि से तैयारी करेंगे तो आपके लिए लाभप्रद होगा :

1. अध्ययन : सबसे पहले सत्रीय कार्य को ध्यान से पढ़िए। फिर इससे संबंधित इकाइयों का अध्ययन कीजिए। अंत में प्रत्येक प्रश्न के संबंध में सभी खास बातें नोट कर लीजिए और उन्हें तार्किक ढंग से पुनर्व्यवस्थित कीजिए।

2. अभ्यास : अपने उत्तर का प्रारूप लिखने से पूर्व नोट की गई बातों पर विचार कीजिए। निबंधात्मक या टिप्पणीपरक प्रश्नों में आरंभ और उपसंहार का विशेष ध्यान दीजिए। उत्तर के आरंभिक अंश में प्रश्न की संक्षिप्त व्याख्या और अपने उत्तर की दिशा का संकेत अवश्य दे देना चाहिए। मध्य भाग में आप उत्तर का मुख्य भाग आवश्यक विस्तार के साथ क्रमबद्ध और तार्किक ढंग से प्रस्तुत करें। उपसंहार में उत्तर का सार देना चाहिए।

यह सुनिश्चित कर लीजिए कि :

क) आपका उत्तर तार्किक और सुसंगत हो,

ख) वाक्यों और अनुच्छेदों (Paragraphs) के बीच स्पष्ट क्रमबद्धता हो,

ग) उत्तर सही ढंग से लिखा गया हो तथा जो आपकी अभिव्यक्ति, शैली और प्रस्तुति के पूर्णतया अनुकूल हो।

घ) उत्तर प्रश्न में निर्धारित शब्दों से अधिक लंबा न हो, और

ड) आपके लेखन में भाषागत त्रुटियाँ न हों, विशेष रूप से मात्रा और व्याकरण संबंधी गलतियों से बचें।

3. प्रस्तुति : जब आप अपने उत्तर से पूर्णतया संतुष्ट हो जाएँ तो उसको साफ और सुंदर अक्षरों में उत्तर पुस्तिका में लिख लीजिए तथा जिन बातों पर आप जोर देना चाहते हैं उन्हें रेखांकित कर दीजिए।

4. विशेष : अपने उत्तर की फोटो प्रति/कार्बन प्रति अपने पास अवश्य रखें।

शुभकामनाओं सहित!

नोट : याद रखें कि विश्वविद्यालय के नए नियमानुसार परीक्षा में बैठने से पूर्व सत्रीय कार्य जमा कराना अनिवार्य है अन्यथा आपको परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

सत्रीय कार्य
(खंड 1 से 4 पर आधारित)

पाठ्यक्रम कोड : एफ.एच.डी.-02
सत्रीय कार्य कोड : एफ.एच.डी.-02/टी.एम.ए./2017-18
कुल अंक : 100

खण्ड 'क'

1. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए:

- (क) उच्चरित और लिखित भाषा का अंतर स्पष्ट कीजिए। 15
(ख) तार्किक लेखन की प्रक्रिया का संक्षिप्त परिचय दीजिए। 15
(ग) आख्यानपरक लेखन की विशेषताएँ बताइए। 10
(घ) औपचारिक पत्र के विभिन्न प्रकारों का उल्लेख करते हुए उनकी विशेषताएँ बताइए। 10

खण्ड 'ख'

2. निम्नलिखित में से प्रत्येक का उत्तर 150-200 शब्दों में दीजिए।

4×5=20

- (क) जीवनी की विशेषताएँ बताइए।
(ख) प्रमुख यात्रा वृत्तांतों का परिचय दीजिए।
(ग) नोट्स लेखन पर टिप्पणी कीजिए।
(घ) 'भाव पल्लवन' क्या है? सोदाहरण समझाइए।

खण्ड 'ग'

3. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

- (क) अपने शहर अथवा गाँव की सड़क की स्थिति पर एक संक्षिप्त रिपोर्ट तैयार कीजिए। 5
(ख) रचना कौशल के प्रमुख पक्षों का विवेचन कीजिए। 5
(ग) अपने मित्र की सफलता पर उसे एक बधाई पत्र लिखिए। 5
(घ) 'पथ के साथी' संस्मरण की विशेषताएँ बताइए। 5
(ङ) अपनी किसी यात्रा को आधार बनाकर एक यात्रा-वृत्तांत लिखिए। 5

4. निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर का चुनाव कीजिए :

5×1=5

- (क) संवाद के लिए आवश्यक है –
(i) टेलीविज़न के कार्यक्रम (ii) दो या दो से अधिक लोगों का होना
(iii) समाचार-पत्र का प्रकाशन (iv) रेडियो समाचार
- (ख) मुक्तिबोध के पत्र किसको सम्बोधित हैं?
(i) नेमिचन्द्र जैन (ii) महादेवी वर्मा
(iii) अज्ञेय (iv) भारत भूषण
- (ग) जैसे शरीर में रक्त प्रवाहित होता है वैसे ही संस्मरण प्रवाहित होती है –
(i) औपचारिकता (ii) अंतरंगता
(iii) अविश्वसनीयता (iv) उपर्युक्त तीनों
- (घ) कार्यवृत्त का तात्पर्य है –
(i) बैठक के विभिन्न मुद्दे (ii) कार्यवाही का मुद्दों के अनुसार विवरण
(iii) बैठक में प्रस्तुत सचिव का प्रतिवेदन (iv) कार्यसूची का विवरण
- (ङ) 'आधे-अधूरे' के लेखक हैं—
(i) मोहन राकेश (ii) रेणु (iii) प्रसाद (iv) पंत

